

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 146]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 अप्रैल 2019—चैत्र 19, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2019

शुद्धि-पत्र

क्र. 490-99-इक्कीस-अ.(प्रा.).—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 490 दिनांक 14 सितम्बर 2018 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 (क्रमांक 31 सन् 2018) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों, अंकों तथा चिन्हों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द, अंक तथा चिन्ह पढ़े जाएं:—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द, अंक तथा चिन्ह (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द, अंक तथा चिन्ह आए हैं (2)	शुद्ध शब्द, अंक तथा चिन्ह जो कि पढ़े जाएं (3)	
	पृष्ठ	पंक्ति	
(1) का कार्य	980(3)	24	की कार्य
(2) करना या तथा	980(7)	13	करना तथा
(3) उसका ऐसा	980(10)	34	उसका ऐसा
(4) नामनिर्देशित प्राधिकारी	980(11)	9	नामनिर्देशित प्राधिकारी
(5) उसके निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे	980(11)	29	उसकी निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य भी होंगे
(6) उसका कार्यान्वयन	980(13)	31	उनका कार्यान्वयन

(1)	(2)	(3)	
	पृष्ठ	पंक्ति	
(7) स्थायी समिति गठित कर सकेगी.	980(14)	30	ऐसी स्थायी समितियां गठित कर सकेगी या तदर्थ समितियों की नियुक्ति कर सकेगी
(8) लिये भी उत्तरदायी	980(14)	35	लिए उत्तरदायी
(9) करेगा;	980(19)	19	करेगा:
(10) अन्तर्विष्ट	980(22)	29	अन्तर्विष्ट
(11) अन्तर्विष्ट	980(22)	34	अन्तर्विष्ट
(12) करेगा;	980(24)	14	करेगा:
(13) दिए	980(24)	22	दिया
(14) ऐसा प्राधिकारी	980(27)	5	ऐसे प्राधिकारी
(15) 6	980(28)	8	31
(16) VISTOR	980(28)	23	VISITOR
(17) 6	980(30)	2	31
(18) University; constituted	980(30)	32	University constituted
(19) University:	980(38)	33	University;
(20) The Executive Council-	980(39)	29	The Executive Council-(1)
(21) Reservations	980(41)	31	Reservation
(22) other	980(41)	33	Other
(23) and his	980(44)	11	and in his
(24) the Dean, student welfare	980(45)	21	the Dean, Student Welfare
(25) fellowships	980(46)	40	fellowships,
(26) medals,	980(46)	40	medals
(27) (No. 41 of 1997	980(48)	26	(No. 41 of 1997)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.